#### **PTC INDUSTRIES LIMITED**

Advanced Manufacturing & Technology Centre NH 25A, Sarai Shahjadi, Lucknow 227 101 Uttar Pradesh, India

Date: September 5, 2023

To,
BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

Dear Sir,

Subject: Advertisement published in newspapers - 60th AGM Notice and E-voting

In terms of Regulation 47 to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published for the 60<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, information on E-voting, and other related information in the following newspapers:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

This is for your information and records.

**For PTC Industries Limited** 

Smita Agarwal
Director and CFO
DIN: 00276903

**Place: Lucknow** 

**FINANCIAL EXPRESS** 

## SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

CIN: L01112UP1989PLC011004 Regd. Office: Plot No. B-2/6 & 2/7, UPSIDC Industrial Area, Sandila Phase IV, Hardoi UP 241204 Corporate Office: F-32/3, Ground Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Email id:- secretarial@shrigangindustries.com; Website- www.shrigangindustries.com;

#### Contact No: 011-42524454/011-42524499 NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM)of the members of M/s Shri Gang Industries and Allied Products Limited will be held on Friday, September 22, 2023 at 3:00 P.M through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of the AGM in accordance with the MCA circulars No.20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 in relation to "Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)" (collectively referred to as "MCA Circulars") read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January 15, 2021 Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/ P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular")

The Notice of AGM along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Thursday, August 31, 2023 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.shrigangindustries.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of CDSL (www.evotingindia.com).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

The remote e-voting period will commence at 10.00 A.M.Tuesday, September 19, 2023 upto 5.00 P.M. on Thursday, September 21, 2023. During this period, Members may cast their vote electronically. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Thursday, September 21, 2023. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available

Once the member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 15, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or e-voting at the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only

A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the electronic dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cutoff date, may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote

Members who are holding shares in physical form or have not registered their e-mail address with the Company/Depositories can obtain login credentials for e-voting as per the following procedure:

- For members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number, e-mail address to be registered along with scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar card by e-mail to the RTA at beetalrta@gmail.com.
- 2. For members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s.

If you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact CDSL on 022-23058542. In case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542.

The results of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM and the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and

The Company has been allotted ISIN (INE241V01018) for dematerialization of the company's shares. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized.

By order of the Board of Directors of M/s Shri Gang Industries and Allied Products Limited

Place: New Delhi Kanishka Jain Date: 31.08.2023 (Company Secretary)



Prejudice to Any Rights Available to Us Under the Act And /Or Any Other Law In Force From Time To Time.'

Block no. A/1003, West Gate, Near YMCA Club, Sur No. 835/1+3, S. G. Highway, Makarba, Corporate office: CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd 1st Floor, Wakefield House, Sprott Rd., Ballard Estate, Mumbai 400 038

DEMIAND NUTICE

"Authorized Officer Of CFM-ARC Had Already Issued Demand Notice U/S 13(2) To All Borrower/S /Guarantor/S & Mortgagors Through RPAD Demanding Amount As Mentioned Therein Within 60 Days From Receipt Of The Notice. However, The Said Notice Could Not Be Served Through RPAD To All Recipients, Hence This Publication."Therefore, We Hereby Calling Upon to Repay the Amount Mentioned In The Notice Appended Below To The CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd. (CFM-ARC) Within The Period Of 60 Days From The Date Of This Paper Notification Together With Further Interest And Other Charges From The Date Of Demand Notice Till Payment Or Realization. In Case You Are Not Discharging Your Liabilities Under the Terms Of Thi Notice, We Shall Be Constrained To Exercise All Or Any One Of The Rights Conferred Under Section 13(4) Or Section 14 Of The Act. "This Is Withou

After Referred To As The Act)

Borrower/s & Co-borrower/s	Demand Notice date / NPA date / Outstanding Amount		Description of the Immovable	
Name & Loan Account Number	NPA date (DD/MM/YY)	Outstanding Amount (Rs.) As On	Property (Mortgaged)	
1. Y VENKATA NARASIMH RAO H15369260218074733 & H15369260218074733L	Demand Notice date: 03-07-2023 NPA date: 06-04-2021	/Puncas Ninety One Lee	Schedule — I: ALL THE PIECE AND PARCEL OF THE Property Address: UNIT NO R0180G52003, FLAT NO 2003/ALBARIA/G5 ADMEASURING 2364 SQ. FT. ON THE 20TH FLOOR OF THE BUILDING KNOWN AS ECO VILLAGE-1 SITUATED AT PLOT NO 08, SECTOR-1 GAUTAM BHUD NAGAR, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH, 201303.	
		·	Sd/- Authorised Officer	

Date: 01.09.2023 For CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd. [Acting in its capacity as Trustee of CFMARC Trust-76] Place: Noida



#### **Government of India Ministry of Finance Department of Investment and Public Asset Management**

GLOBAL INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PROPOSED STRATEGIC DISINVESTMENT OF 100.00% EQUITY SHAREHOLDING (98.11 % of Government of India Shareholding & 1.89% of Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd (KMVNL), an undertaking of Government of Uttarakhand) IN INDIAN MEDICINES PHARMACEUTICAL CORPORATION LIMITED ("IMPCL")

Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited (the "IMPCL") is a Central Public Sector Enterprise ("CPSE") under the administrative control of Ministry of Ayush, Government of India. IMPCL, a Mini Ratna - II CPSE was established in 1978 with an objective to manufacture and supply genuine as well as efficacious Indian Systems of Medicines. IMPCL is an ISO 9001-2015 and WHO-GMP certified company which is one of the most trusted manufacturers of Indian System of Medicines in the country and is known for authenticity of its formulations. The Government of India ("Gol") intends to disinvest its entire stake in IMPCL (98.11%) through Strategic Disinvestment with transfer of management control ("Strategic Disinvestment" or "Transaction"). The KMVNL having stake of 1.89% in IMPCL has expressed its willingness to disinvest along with Gol.

Interested Bidders must submit their Eol in physical as well as in electronic forms via e-mail on or before October 15, 2023 (upto 1500 hours IST) at the address mentioned below.

The invitation for Eol and Preliminary Information Memorandum ("PIM") can be viewed downloaded from www.resurgentindia.com, www.dipam.gov.in, www.ayush.gov.in and www.impclmohan.nic.in.

Mr. Vikas Srivastava, Sr. Manager **Resurgent India Limited** 

903-906, 9th Floor, Tower-C, Unitech Business Zone, Sector-50,

Nirvana Country, Gurugram-122018, Haryana

E-mail: disinvestment@resurgentindia.com

CBC-15601/11/0001/2324



### TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024..

NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Under Rule 8(6) read with Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co- Borrower, or their legal heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 04-10-2023 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" and without any recourse basis", for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured asset/ property shall be sold by E-Auction at 2.00 P.M. on the said 04-10-2023. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E- Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 03-10-2023 till 5.00 PM, at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED. B-36, 1St & 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024.

The sale of the Secured Asset/Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein below; Sr. Loan Name of Borrower(s)

No		/ Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal Representative/ Guarantor(s)	Demand Notice	Price	Money
1.	TCH HF03 6200 0100 0746 64	Mr. Pawan Kumar Verma S/o Mr. Ram Krishan Verma Mrs. Babli Verma W/o Mr. Pawan Kumar Verma	Rs. 1,19,11,871/- (Rupees One Crores Nineteen Lakh Eleven Thousand Eight Hundred Seventy One Only)	Property No. 388-A (Old), New No. 683 – Rs. 94,23,100 /- And Shop No. 28 – Rs. 36,72,000/- And Office No. 12 – Rs. 46,75,000/-	Property No. 388-A (Old), New No. 683 – Rs. 9,42,310 /- And Shop No. 28 – Rs. 3,67,200/- And Office No. 12 – Rs. 4,67,500/-

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the 1) Residential House bearing No. 388A (Old) and 683 (New), Part of Plot No. 63, Admeasuring 45.345 Sq. Mtrs., Covered Area 93.89 Sq. Mtrs., Situated at Mohalla Ram Nagar (Ismail Khan), Ward & Pargana Loni, Distt. Ghaziabad (Uttar Pradesh), with all common amenities mentioned in sale deed. Boundaries: East Independent Wall of Plot No. 62 (P.C. Bhutani), West - Joint Wall (1/2 of Self - 1/2 of Rajkumar), North - Joint Wall and thereafter Bathroom & Store, South - Road 20' Wide

2) Commercial Shop bearing No. 28 (On Ground Floor) Admeasuring 20.12 Sq. Mtrs (Super Covered Area) Situated at Ram Nagar Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh), with all common amenities mentioned in sale deed

And Commercial Office bearing No. 12 (On First Floor) Admeasuring 18.69 Sq. Mtrs. (Super Cover Area), Situated at Property No. 366 (Old) & 430 (New), Situated at Ram Nagar, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh), with all common amenities mentioned in sale deed. Boundaries: East - Property of Seller (Shop No. 26 & Office No. 13), West - Kothi of Nawab Sahab, North - House of Sri Niwas Ji, South - Comman Passage 11'.

Note; - SA filed by the Borrower against TCHFL (602/2022) is pending before DRT, Lucknow, No stay order is passed against TCHFL in At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last

chance to pay the total dues with further interest within 30 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further

conditions: The E-auction will take place through portal https://sarfaesi.auctiontiger.net\_on 04-10-2023 between 2.00 PM to 3.00 PM with limited


extension of 10 minutes each. Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the

undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the Immovable Property shall at once again be put up to auction subject to the discretion of the Authorised Officer. 2. The Immovable Property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only). 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." Payable at Branch address. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorised Officer. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorised Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 20-09-2023 between 11 AM to 5.00 PM, with prior appointment. 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day, 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: as per table above. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc.. 12. For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s e-Procurement Technologies Limited (Auctiontiger), Address: B-704, Wall Street - II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India) Mob.: 9265562821 & Phone: 079 61200 594 / 598 / 559 / 587 / 554 Email ID: Gujarat@auctiontiger.net or Manish Bansal, Email id Manish.Bansal@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 8588983696. Please send your query on WhatsApp Number - 9999078669. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company. 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website https://bit.ly/3KP8zL9 for the above details. 15. Kindly also visit the link: https://www.tatacapital.com/property-disposal.html Please Note - TCHFL has not engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of this property.

Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all gueries and enquiry in this matter. Sd/- Authorised Officer

Tata Capital Housing Finance Ltd.

MOHINDRA FASTENERS LIMITED



Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia, Email id: csnidhipathak@mohindra.asia, Phone: +91-11-46200400, Fax: +91-11-46200444 NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING.

REMOTE E-VOTING & E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION Notice is hereby given that:

 The 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mohindra Fasteners Limited (the 'Company') will be held on Friday, the 22nd September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio-Visual Means 'OAVM' without the physical presence of Members of the Company at a common venue, to transact the business as set out forth in the notice convening 29th AGM dated 12.08.2023.

2. In compliance with the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with previous circulars issued by the MCA in this regard (collectively to be referred to as "MCA Circulars") and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other circulars issued by SEBI in this regard (collectively to be referred to as "SEBI Circulars"), electronic copies of Notice of the AGM along with Annual Report for the FY 2022-23 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/Depositories/Share Transfer Agent. These documents are also available on the website of the Company at www.mohindra.asia, website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at <a href="https://www.msei.in">www.msei.in</a> and on the website of the NSDL <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. 3. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and subsequent

amendments thereto and regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to its members through NSDL to exercise their right to vote electronically on the business set forth in the notice of All the Members are hereby informed that a person whose name is registered as member and are holding shares either

in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Friday, September 15, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-voting system available during the AGM. Members may note the following information:

Date of completion of dispatch of Annual Report including Associated 20, 2022 (Medicandon)

the Notice of 29th AGM through emails	August 30, 2023 (wednesday)
The Cut-off date for determining the eligibility of the members to vote electronically	September 15, 2023 (Friday)
Date and time of commencement of remote e-voting	From 09:00 A.M. September 17, 2023 (Sunday)
Date and time of end of remote e-voting	Upto 05:00 P.M. September 21, 2023 (Thursday)
925 (1977) The Control of the Contro	

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the above-mentioned date and time for voting and once

6. The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again.

he vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

registered with NSDL for remote e-voting, existing User ID and password can be used for casting vote.

Members/shareholders, who have not cast their vote through remote e-voting prior to the AGM and are otherwise not barred from doing so and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The

nstructions for attending the AGM through VC /OAVM are provided in the Notice of the AGM. 8. Any person who becomes member of the Company after sending of the Notice and the Annual Report by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 15th September, 2023 (Friday), may obtain the Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in / compliances@skylinerta.com by mentioning their folio no./Dp id &; Client id. However, if he/she is already

9. Shareholders holding shares in dematerialized mode and have not updated their KYC details are requested to register the email and other KYC details with their depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are required to submit Form ISR 1 (available for download from http://mohindra.asia/mfl/shareholder\_comer.html) to update their email address, bank account details and other KYC details with Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in physical mode are requested to email the dully filled in form, to csnidhipathak@mohindra.asia.

10. The Company has appointed Mr. Anand Kumar Singh, Partner at M/s Anand Nimesh & Associates, Practicing Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-voting or e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.

 In case of any queries related to remote e-voting / e-voting, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact Pallavi Mhatre, Manager NSDL, 4 th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email address: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in, toll free no.: 1800-222-990 or to Company Secretary of the company at 304 Gupta Arcade, Inder Enclave Delhi-Rohtak Road, New Delhi-110087, contact at 011-46200400 or email address: cs@mohindra.asia or to Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited at +91-11-40450193-97 or email address: compliances@skylinerta.com

 NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure) Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules), the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from Saturday September 16, 2023 to Friday September 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

> By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited Sd/-

Date: 01.09.2023 Nidhi Pathak Place : New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

### ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED

CIN - L67120HR1980PLC039125 REGD. OFFICE: RIDER HOUSE, Ground Floor, Plot No. 136, Sector-44, Gurgaon-122003 Phone: +91-124-4284578/4284580/4284582 Email: info@aravalisecurities.com, Website: www.aravalisecurities.com NOTICE OF 43<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 43<sup>RD</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of Aravali Securities and Finance Limited will be held via Video Conferencing (VC) /Other AudioVisual Means (OAVM) on Thursday, the 28th September, 2023 at 11.00 a.m. (IST) to transact the business, as set out in the Notice of AGM. In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and the continuing restriction on movement of persons at several places in the country and pursuant to General Circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 28th September 2020, 31st December 2020 and 13th January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 12<sup>th</sup> May 2020 and 15th January 2021 ('SEBI Circulars') permitted the holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the above and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the AGM of the Company is being held through VC / OAVM only on Thursday at 11:00 a.m. (IST). In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the AGM of the members of the Company is being held through VC / OAVM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM. The soft copies of the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2023 and the Notice of the Annual General Meeting is available on the Company's website www.aravalisecurities.com for download by the

NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement that the Register of Members and Share Transfer Books of the Equity Shareholders of the Company will remain closed from Friday, the 22<sup>nd</sup> September, 2023 to Thursday, the 28<sup>th</sup> September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. NOTICE is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act,

2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of

the Listing Agreement that the Company has offered remote e-voting facility for transacting all the business through National Securities Depository Ltd. (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote evoting period commences on Monday, the 25th September, 2023 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, the 27th September, 2023 (5.00 p.m.). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21st September, 2023 may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after issuance of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2023, will be provided the notice through mail after the cut-off date and such members may also obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, Skyline Financial Services Private Limited. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Members who are participating in the meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on September 28, 2023 can cast their vote during the meeting electronically on the business specified in the notice of the AGM dated August 12, 2023 through electronic voting system (E-Voting) of NSDL. However only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E Voting system in the AGM.

In case you have any queries or issues regarding the voting in any of the above form, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll

free no.: 1800-222-990. The detailed procedure intimations for remote e-voting are contained in the Notice of the AGM. Any guery/grievance relating to remote e-voting can be addressed to Ms. Ruchi Shrivastava, Company

Secretary, Plot no. 136, Ground Floor, Rider House, Sector-44, Gurgaon-122003, Haryana, Phone

no.:+91-124-4284578/4284580/4284582, Email:companysecretary@aravalisecurities.com. By order of the Board For Aravali Securities & Finance Limited

Place: Gurgaon Date: 12.08.2023

Ruchi Shrivastava Company Secretary

# INDUSTRIES

CIN: L27109UP1963PLC002931

Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Shahiadi, Lucknow, Uttar Pradesh 227101, India

Ph: +91 522 7111017, Fax: +91 522 7111020, Web: www.ptcil.com

The60th Annual General Meeting ("AGM") of the PTC Industries Limited

NOTICE OF 60" ANNUAL GENERAL MEETING. AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS OF PTC INDUSTRIES LIMITED

will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAV") on Friday September 22, 2023 at 03:00 (PM), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 and Circular No.10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), to transact the business set out In the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at www.evotingindia.comunder shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.ptcil.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, website of National Stock Exchange Limited at www.nseindia.comand on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM i.e. www.evotingindia.com.

Manner of registering KYC / updating email addresses: (a) In case shares are held in physical mode the relevant Forms for

registering/changing KYC details and Nomination, viz. Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 as well as the SEBI circulars are available on our website at https://www.linkintime.co.in -> KYC-Formats. In order to make the folio KYC compliant, the holder is required to submit the duly completed Forms along with supporting documents as indicated therein. (b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered

/ updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demataccounts. Manner of casting vote(s) through e-voting:

(a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-

(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who

have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.ptcil.com. (c) The facility for voting through electronic voting system will also be made

available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. (d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made

available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given In the Notes to Notice of AGM.

(e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/ OAVM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for Joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM.

Members are further Informed that the remote e-voting period shall start from Tuesday, September 19, 2023 (09.00 AM) to Thursday, September 21, 2023 (5.00 P.M.) (both days Inclusive).

. A person, whose name is recorded in the Register of Members or In the Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023 only shall be entitled to vote.

> For PTC Industries Limited (Pragati Gupta Agarwal)

> > Company Secretary

Place: Lucknow Date: 31.08.2023

New Delhi

Place: Ghaziabad

Date:- 01-09-2023

financialexp.epap.in

thoughtful regeneration

एमआईडीसी, मुम्बई, महाराष्ट्र-400093, भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र. 201301

शाखा बंद होने स्थानांतरित होने की सूचना रोहा हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड के ग्राहकों को सुचित किया जाता है कि ऑफिस नं. 722, 7वां तल, जैना टावर 2, जनकपुरी वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वेस्ट दिल्ली-110058 में स्थित उसकी एक शाखा 30 नवम्बर, 2023 (इस सुचना के 90 दिन बाद) से बंद हो जायेगी।

संशोधित पते के लिये आपसे आग्रह है कि आरएचएफपीएल की वेबसाईट https://rohahousing.com देखें या टोल फ्री नं. (अर्थात्) 18002662111 पर डॉयल करें या किसी भी प्रकार की सहायता के लिये अपने नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 31 अगस्त, 2023

रोहा हाउसिंग फाइनांस प्रा.लि. (CIN:U65999MH2017PTC293277)

अजंता सोया लिमिटेड

सीआईएन : L15494RJ1992PLC016617 पंजीकृत कार्यालय : एसपी–916, फेज–।।।, इण्डस्ट्रियल एरिया, जनपद अलवर, भिवाडी 301 019, राजस्थान, दुरभाष सं. : 911-6176727, 911-6128880 कॉर्पोरेट कार्यालय: 12वां तल, बिगजोस टॉवर, ए-8, नेताजी सुभाष प्लेस,

> वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110 034 **दूरभाष नं.** : 91-11-42515151, फैक्स : 91-11-42515100 वेबसाइट : www.ajantasoya.com, ई-मेल : cs@ajantasoya.com

पिडयो काफ्रीसग (वीसी)/अन्य आडियो विजुअल साधनो (ओएवीएम) के माध्यम स आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक आम बैंठक (एजीएम) के संबंध में जानकारी

मंगलवार, २६ सितंबर, २०२३ को अप. १२.३० बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधि. नियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धत दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 (''सूचीबद्धता विनियमावली'') तथा सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और इस संबंध में निर्गत अन्य परिपत्रों (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 19 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 5 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा निर्गत परिपत्र संख्य सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित अपने परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआरपी / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 (''सेबी परिपत्र'') एवं इस संबंध में निर्गत अन्य परिपत्रों (सामुहिक रूप में ''परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित), के समस्त लागूयोग्य प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित किये जानेवाले व्यवसायों को संच. ालित करने के लिये किसी एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना आयोजित की

धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणपर्ति के उददेश्यार्थ की जायेगी। उक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट केवल कंपनी के उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ajantasoya.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com पर तथा इनके साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध करायी जायेगी। वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और / या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-वोटिंग अनुदेशों सहित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे पंजीकरण/अपडेट करने के लिए निम्नलिखित बिंदवार विवरण नोट कर सकते हैं

जायेगी। सदस्यगण, केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे।

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों की गणना, कंपनी अधिनियम, 2013 की

क. भौतिक धारिता : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे नीचे दिए गए पते पर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आरटीए को फॉर्म आईएसआर -1 की विधिवत भरी और हस्ताक्षरित भौतिक प्रति जमा करके अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करे :

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डी-153 ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110 020 संपर्क नं.: 011-40450193 से 97

अभौतिक धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें तथा अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें। फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी–पीओडर–1 / पी / सीआईआर / 2023 / 37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुपलान में, कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली 2014 के नियम 19(1) में दिए गए अनुसार, फॉर्म एसएच–13 के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म आईएसआर–1 के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन और अन्य केवाईसी विवरण प्रस्तुत/अपडेट करना अथवा उन्हें फॉर्म आईएसआर–3 के माध्यम से नामांकन देने से बाहर निकलने का तथा फॉर्म एसएच-14 के माध्यम से नामांकन बदलने का विकल्प चुनना अनिवार्य है। फॉर्म, कंपनी की वेबसाइट www.ajantasova.com पर भी उपलब्ध हैं। इससे 01 अक्टूबर, 2023 को या इसके बाद फोलियो को फ्रीज होने से बचाया जा सकेगा। सेबी ने परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडीऋआरटीएबीएम / पी / सीआईआर / 2022 / 8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को केवल डीमैट मोड में प्रतिभृतियां निर्गत करना अनिवार्य

ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने और एजीएम में सम्मिलित होने की प्रविधि

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई–वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की सूचना मे निर्धारितानसार व्यवसाय पर अपने वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना

ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने की प्रविधि ("रिमोट ई-वोटिंग") एजीएम की सूचना में उपलब्ध करायी जायेगी। ग. एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं डाले हैं, वे एजीएम में वोट दालने में समर्थ हो सकेंगे।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को ईमेल के माध्यम उपलब्ध कराये जायेंगे। उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के

जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी

प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के बिंदुवार विवरणों में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल्स उत्पन्न कर सकते हैं। लाभांश प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अध्यादेश की प्रविधि

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत / अद्यतन करें :--

क. अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ, जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता बनाए रखते

हैं, यदि शेयरों को डिमटेरियलाइज्ड मोड में रखा जाता है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा करके: और ख. स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ, यदि शेयर भौतिक मोड

में रखे गए हैं, तो अपेक्षित अनुसमर्थनकारी दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर -1 इसके उपरोक्त पते पर जमा करते हुये। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के की सूचना में निर्धारित सभी नोटस तथा विशेष रूप से, एजीएम मे

शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृते अजंता सोया लिमिटेड

दिनांक : 31 अगस्त, 2023 कपिल स्थान : नई दिल्ली

खाता संख्या तथा कर्जदार.

टाटा कैपिटल हाउँसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत पता : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनस्ला बिजनेस पार्क.

गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर – पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत) प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी सूचना

एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता तथा/सह–उधारकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (उधारकर्ताअं को विशिष्ट रूप में सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति जिसका अधिग्रहण टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 04–10–2023 को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ताओं की ओर बकाया देयराशियों की वसली के लिए किया जाएगा आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन के अभाव में, उक्त प्रतिभृत परिसंपत्ति / संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी द्वारा उक्त 04-10-2023 को अप. 2.00 बजे किया जाएगा। ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा, टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के पास 03-10-2023 को सायं 5 बजे तक अथव इससे पूर्व शाखा के पते, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी–36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर – पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर नई दिल्ली–110024 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति / अचल संपत्ति का विक्रय, यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार ''जैसी है जहां है अवस्था'' पर आधारित होगा

मूल्य राशि		उधारकर्ता(ओं) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधि क प्रतिनिधि / गारंटर(रों) के नाम	खाता सं.	सं.
त सं. 388—ए (पुरानी), नई सं. 683 — 94,23,100 / — तथा दुकान सं. 28 — 36,72,000 / — तथा जर्यालय सं. 12 — रू. 46,75,000 / —	रु. 1,19,11,871 / — (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) ————————————————————————————————————	श्री पवन कुमार वर्मा पुत्र श्री राम कृष्ण वर्मा श्रीमती बबली वर्मा पत्नी श्री पवन कुमार वर्मा	TCH HF03 6200 0100 0746 64	1.
<sub>ह.</sub>	26-04-2022 त <b>के समस्त वह भाग तथा अंश</b> र आवन्त क्षेत्रफल 93.89 वर्ग मीट		ग संपत्ति	

(उत्तर प्रदेश) में स्थित है, जो विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख—सुविधाओं के साथ है। सीमायें : पूर्व— भुखंड सं. 62 की स्वतंत्र दीवाल (पी.सी. भुटानी), पश्चिम— संयुक्त दीवाल (1/2 स्वयं की – 1/2 राजकुमार की), उत्तर– संयुक्त दीवाल तथा उसके पश्चात स्नानागार एवं भण्डार दक्षिण- सडक 20' चौडी।

2) वाणिज्यिक दुकान सं. 28, जो (भू तल पर) अधिमापन 20.12 वर्ग मीटर (अधि आवृत्त क्षेत्रफल), राम नगर, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित तथा विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सख–सविधाओं के साथ है

तथा वाणिज्यिक कार्यालय सं. 12, जो (प्रथम तल पर) अधिमापन 18.69 वर्ग मीटर (अधि आवृत्त क्षेत्रफल), संपत्ति सं. 366 (पुरानी) एवं 430 (नई) पर राम नगर, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित तथा विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख-सुविधाओं के साथ है। **सीमायें :** पूर्व— विक्रेता की संपत्ति (दुकान सं. 26 एवं कार्यालय सं. 13), पश्चिम— नवाब साहब की कोठी, उत्तर— श्री निवास जी का गृह दक्षिण- साधारण उप लघु मार्ग 11'

टिप्पणी :— उधारकर्ता द्वारा टीसीएचएफएल (602 ∕ 2022) के विरुद्ध प्रस्तुत एसएस, डीआरटी लखनऊ के समक्ष लंबित है, उक्त प्रकरण में टीसीएचएफएल के विरुद्ध कोई भी स्थगनादेश पारित नहीं हुआ है।

नीलामी में. जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा / प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता( को एतदद्वारा इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के अंदर भावी ब्याज के साथ कल बकाया देयराशियों का भगतान करने के लिए अंतिग अवसर प्रदान किया जाता है। अंतिम अवसर का लाभ उठाकर भुगतान करने में विफल रहने पर अचल संपत्ति को अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा ई-नीलामी उस स्थिति में भी रोक दी जाएगी, यदि ब्याज एवं लागतों (विक्रय की लागत सहित) के साथ उपर्युक्तानुसार देय राशि 'प्राधिकृत अधिकारी को भुगतान कर दी जाती है अथवा अधिकारी की संतुष्टि हेतु इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण व इसके ब्याज एवं लागतों की राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस विक्रय के संबंध में कोई भी कार्य–दायित्व निभा रहा है, यद्यपि वह कार्य-दायित्व को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता। विक्रय जो है, वह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के अधीन होगा

ई-नीलामी, पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 04-10-2023 को अप. 2.00 बजे से लेकर के अप. 3.00 बजे तक 10 मिनटो प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी।

**नियम एवं शर्ते** : (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उदघोषणा में हुई / होनेवाली किसी त्रृटि, त्रृटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतू उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। (2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/ (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) संपत्ति के क्रयार्थ जमा ∕ प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भूगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदााओं क डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से धराज के भुगतान हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्व करें। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जात है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। (6) अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें / उसे समाप्त कर दें। (7) अचल संपत्ति का अवलोकन जो है वह पूर्व अनुमित प्राप्त करके 20-09-2023 को 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच किया जा सकता है। (8) एव सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि / बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने प संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी / विक्रय हेत रख दिया जाएगा। (9) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा क दी जाती है तो क्रयराशि की शेष रकम का भूगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपृष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथव इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वें दिवस के बाद आनेवाले प्रथम कार्यालय दिवस में करना होगा। (10) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भगतान में चुक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा नः नीलामी / विक्रय हेत् रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चुककत क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेत् संपत्ति है : उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं– सपंत्ति कर के बकायों, विद्युत इत्यादि के बकाय सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। (12) किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई-नीलार्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित बोलीदातागण, सेवा प्रदाता, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड (आक्शनटाइगर), पता : बी–704 वॉल स्ट्रीट—।।, ओरियेंट क्लब के सम्मुख, गुजरात कॉलेज के समीप, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद—380006 गुजरात (भारत), मोबाइल : 9265562821 ए दूरभाष : 079 61200 594 / 598 / 559 / 587 / 554, ईमेल आईडी : Gujarat@auctiontiger.net अथवा श्री मनीष बंसल को उनकी ई-मेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सऐप नंबर 9999078669 पर प्रेषित करें। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जान है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान को स्वामी / उधारकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा / प्रस्तुत करनी होगी। (14) उपरोक्त विवरणों के लिए कपया प्रतिभत ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक https://bit.lv/3KP8zL9 का संदर्भ ग्रहण करें। (15) कृपया लिंक : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html को भी देखें।

को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पूछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथव प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,

कृपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय/नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामकर्ता साझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर/एजेंट

स्थान : गाजियाबाद

दिनांक : 01-09-2023 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सरिक्षत मल्य, धरोहर

ई-नीलामी की तिथि एवं



क्र.

# चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड

सम्पत्ति/सम्पत्तियों

कार्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर ६, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम, मोबाइल नंबर 8287233717

## अचल सम्पित्तयों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभृत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ के माध्यम से करेंगे।

धारा 13(2) के

फ़. सं.	सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	का वर्णन	राशि जमा एवं बोली वृद्धि	समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि,
1.	ऋण खाता सं. X0HEDET00003141382, X0HEDET00003123183 एवं HE02DET00000008516)  1. दिनेश गर्ग (आवेदक), सी—25, बीकानेर स्वीट, संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059  अन्य पता: दिनेश गर्ग (आवेदक), आरजैड—37, सुभाष पार्क एक्सटेंशन, तार फैक्ट्री चौक, मेन राजापुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059  2. सिवता उर्फ सिवता जी (सह—आवेदक), सी—25, बीकानेर स्वीट, संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059  अन्य पता: सिवता उर्फ सिवता जी (सह—आवेदक) आरजैड—37, सुभाष पार्क एक्सटेंशन, तार फैक्ट्री चौक, मेन राजापुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059  3. श्री महालक्ष्मी ज्वैलर्स (सह—आवेदक), सी—25, बीकानेर स्वीट, संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059  अन्य पता: श्री महालक्ष्मी ज्वैलर्स (सह—आवेदक) आरजैड—37, सुभाष पार्क एक्सटेंशन, तार फैक्ट्री चौक, मेन राजापुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059	19—04—2023 रू. 30,28,852 / — कब्जा का प्रकार साकेतिक	ग्राम बिंदापुर, आबादी संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली के क्षेत्र में ब्लॉक—सी में खसरा नंबर 373 के भाग में प्लॉट नंबर सी—45 क्षेत्रफल परिमाप 100 वर्ग गज पर सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के अधिकार, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :- पूरब : रोड, पश्चिम : सम्पत्ति सं. सी—44, उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड	<b>राशि (रू. में)</b> रू. 36,00,000 / – रू. 3,60,000 / – रू. 50,000 / –	निरीक्षण की तिथि  11-10-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से  अप. 01.00 बजे तक  10-10-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से  अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समय के अनुसार
2.	(ऋण खाता सं. X0HEEDL00001411414 एवं X0HEEDL00001728906)  1. पन्ना लाल, एफ-11, तृतीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-110016 (एम) — 09891375993 अन्य पता: 1033 / 14, अलमाल मार्किट गली हीरा चंद, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 (एम) — 09891375999 अन्य पता: 41, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 2. नीरू वर्मा उर्फ नीरू वर्मा, एफ-11, तृतीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-110016 (एम) — 09891375993 अन्य पता: 1033 / 14, अलमाल मार्किट गली हीरा चंद, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 (एम) — 09891375999 अन्य पता: 41, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 3. पारस वर्मा, एफ-11, तृतीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-110016 (एम) — 09891375993 अन्य पता: 1033 / 14, अलमाल मार्किट गली हीरा चंद, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 (एम) — 09891375999 अन्य पता: 41, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 4. चंदन कुमार पन्ना लाल वर्मा, एफ-11, तृतीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-110016 (एम) — 09891375993 अन्य पता: 1033 / 14, अलमाल मार्किट गली हीरा चंद, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली-110016 (एम) — 09891375993 अन्य पता: 1033 / 14, अलमाल मार्किट गली हीरा चंद, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 (एम) — 09891375993	29—05—2023 रू. 1,46,64,343 / — कब्जा का प्रकार सांकेतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. एफ—11 का सम्पूर्ण द्वितीय तल, सम्पूर्ण टेरेस अधिकार (उक्त टेरेस और अनुवर्ती टेरेसेज पर आकाश तक एरियाज / फ्लोर्स के निर्माण और स्वामित्व के अधिकार सहित) तथा उक्त सम्पत्ति के नीचे 200 वर्ग गज परिमाप भूमि में यथानुपात अविभाजित, अविभाज्य तथा अवियोजनीय स्वामित्व अधिकारों सहित उपरोक्त नामक क्रेता को उक्त बिल्डिंग के अन्य हिस्सों के स्वामियों / अधिभोगियों सहित बिल्डिंग में उपलब्ध कराए गए सभी कॉमन पैसेजेज, स्टेयरकेस, ड्राइववे, अंडरग्राउंड तथा ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक्स एवं अन्य सभी कॉमन सर्विसेज, सुविधाओं, सुख—सुविधाओं, उपभोगाधिकारों इत्यादि सहित।	ক. 1,90,00,000 / — ক. 19,00,000 / — ক. 1,00,000 / —	11-10-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 10-10-2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समय के अनुसार
3.	ऋण खाता सं. <b>X0HEEDL00001443534 1. विशाल गुप्ता</b> डी—362, लक्ष्मी नगर, गली नंबर 14, नई दिल्ली—110092 <b>2. हीरा गुप्ता</b> डी—362, लक्ष्मी नगर, गली नंबर 14, नई दिल्ली—110092	05—10—2020 रू. 71,11,946.66 कब्जा का प्रकार भौतिक	सम्पत्ति सं. डी—362 (भू तल और प्रथम तल) ब्लॉक डी, क्षेत्रफल परिमाप 43 वर्ग गज, खसरा नंबर 220 का हिस्सा, आबादी गली नंबर 13 एवं 14, लक्ष्मी नगर, ग्राम शकरपुर खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली। चौहद्दी निम्नानुसार :— पूरब — गली नंबर 13, पश्चिम — गली नंबर 14, उत्तर — अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण — अन्य की सम्पत्ति	ক. 90,00,000 / — ক. 9,00,000 / — ক. 1,00,000 / —	11—10—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 10—10—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समय के अनुसार

1. आईओएन—नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), Ms.procure247, (सम्पर्क व्यक्ति : करण मोदी : **70167 16557— karan@procure247.com**, अपूर्व पटेल : 91061 96864— apurva@procure247.com, अल्पेश बोरिसा — alpesh@procure247.com

2. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/auction-notices देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 01-09-2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन - L67120HR1980PLC039125 सीआइएन — L67120HR1980PLC039125 कृत. कार्यालयः राइडर हाउस, भूतल, प्लॉट नं. 136, सेक्टर–44, गुड़गांव–122003 फोनः +91-124-4284578 / 4284580 / 4284582

ईमेलः info@aravalisecurities.com, वेबसाइटः www.aravalisecurities.com 43वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना एतदद्वारा नोटिस दिया गया है कि अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को पूर्वाह 11.00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम के नोटिस र निर्धारित अनुसार कार्यवाही निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। कोविड-19 महामारी वे प्रकोप को देखते हुए, देश के कई स्थानों पर सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए और व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा तथा एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति देने के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") (सामृहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 28 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 और 13 जनवरी 2021 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 ('सेबी सर्कूलर') द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्रों के अनुपालनार्थ, उपरोक्त प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम')तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम केवल गुरुवार सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी वे पंजीकृत कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना की सॉफ्ट प्रतियां सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिए कंपनी की वेबसाइट www.aravalisecurities.com पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथ

सूचीबद्धता समझौते के खंड 16 के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की शेयर ट्रांसफर पुस्तिका,वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने व उद्देश्य से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक बंद रहेगी कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीबद्धता समझौते के खंड 35 बी के प्रावधानों के अनुपालन में नोटिस दिया गया है कि कंपनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी कार्यवाही निष्पादित करने हेत् रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है। रिमोट ई मतदान की अवधि सोमवार, 25 सितंबर, 2023 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू होती है और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होती है। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई-मतदान की अनमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जिनके पास 21 सितंबर, 2023 की कट-ऑफ तारीख तक शेयर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में हैं, वे रिमोट ई-मतदान द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस जारी होने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2023 तक शेयर रखता है, उसको कट-ऑफ तिथि के बाद मेल के माध्यम से नोटिस प्रदान किया जाएगा और ऐसे सदस्यों को evoting@nsdl.co.in या आरटीए, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर अनुरोध भेजकर भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जो सदस्य 28 सितंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे हैं, वे 12 अगस्त, 2023 के एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट कार्यवाही पर एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।हालॉिक, केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है. वे एजीएम में ई वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। यदि आपके पास उपरोक्त किसी भी प्रारूप में मतदान के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है.तो आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न("एफएक्यू") और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नं. : 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी एजीएम के नोटिस में दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत हेतु सुश्री रुचि श्रीवास्तव,कंपनी सचिव,प्लॉट नं 136, भूतल, राइंडर हाउस, सेक्टर–44,गुड़गांव–122003,हरियाणा,फोन नंबर:+91–124–4284578/ 4284580 / 4284582, ईमेलः companysecretary@aravalisecurities.com को संबोधित किया

दिनांकः 12.08.2023

**स्थान**ः गुड़गांव

बोर्ड के आज्ञानुसा

कृते अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड रुचि श्रीवास्तव

INDUSTRIES

रजि. कार्यालयः उन्नत विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, एनएच-25ए, सराय शहजादी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 227101, भारत फोनः +91 522 7111017, फैक्सः +91 522 7111020, वेबः www.ptcil.com

सीआईएन: L27109UP1963PLC002931

## पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों हेतु 60वीं वार्षिक आम बैठक और दूरस्थ ई—वोटिंग जानकारी की सूचना

1) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (सामुहिक रूप से'एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020,परिपन्न संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी सर्कलर")द्वारा संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी /

सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 अनुपालनार्थ, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 60वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 को 03:00 बजे (दोपहर) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स ("ओएवी") के माध्यम से एजीएम आमंत्रण के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्य सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग प्रत्ययपत्र का उपयोग करके शेयरधारक / सदस्य लॉगिन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

2) प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण और एजीएम की सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न होने वाले आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिसका ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ptcil.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और सीएसडीएल ( एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। केवाईसी पंजीकृत करने / ईमेल पते अद्यतन करने की विधि

(क) यदि शेयरों को भौतिक मोड में रखा जाता है तो केवाईसी विवरण और नामांकन को पंजीकृत करने/बदलने के लिए प्रासंगिक फॉर्म अर्थात फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14 के साथ-साथ सेबी परिपत्र, हमारी वेबसाइट https://www.linkintime.co.in -> KYC-Formats पर उपलब्ध हैं। फोलियों को केवाईसी के अनुरूप बनाने के लिए, धारक को उसमें बताए गए सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हए फॉर्म जमा करने होंगे।

(ख) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं। ई–मतदान के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः

(क) सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।

(ख) डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका ("रिमोट ई-वोटिंग") एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइटwww.ptcil.com पर भी

(ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर

(घ) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन प्रत्यय सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सुचना के नोटस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन प्रत्यय उत्पन्न कर सकते हैं। (ड) इसी लॉगिन प्रत्यय का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग

लेने के लिए भी किया जा सकता है। 5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देश, विशेष रूप

से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान वोटिंग सहित सभी टिप्पणियों को ध्यान से

6. सदस्यों को इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 (सुबह 09.00 बजे) से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (शाम 5.00 बजे) (दोनों दिन शामिल) तक शुरू होगी।

7. एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोलिंडग के मामले में) में दर्ज है, केवल वह ही वोट

दिनांकः 31.08.2023

देने का हकदार होगा। कृते पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता /- (प्रगति गुप्ता अग्रवाल) स्थानः लखनऊ

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष नई दिल्ली स्थित बेंच सीपी सं. 130/131/एनडी/2023

पी एंड आर इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 89, लोक नायक अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली- 110085 ...आवेदक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एवं अन्य

याचिका की सुनवाई की सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए

नियमों की धारा 131 के तहत वि.व. 2021-22 के लिए पी एंड आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड यानी आवेदक कंपनी के वित्तीय सारांश संशोधित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष 25.07.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था और उक्त आवेदन अब 13.09.2023 को माननीय ट्रिब्यूनल के समक्ष सनवाई के लिए तय किया गया है। उक्त आवेदन का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक

किसी भी व्यक्ति को आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और/या माननीय ट्रिब्यूनल को अपने इरादे की सचना आधार बताते हुए एक हलफनामे के रूप मे भेजनी चाहिए, जिस पर उसका नाम और पता, य उसके वकील द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले पहुंच जानी चाहिए। आवेदन की एक प्रति आवेदक कंपनी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, जिसे इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

अधिकृत हस्ताक्षरी पी एंड आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल (पश्चिम विंग), वर्ल्डमार्क-1, एरोसिटी, नई दिल्ली-110037 फोन: 011-42100200 CIN No.: L74899DL1989PLC034923

ईमेल: shares@dcmshriram.com वेबसाइटः www.dcmshriram.com

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

उक्त नियमावली में ऐसे शेयरों के साथ व्यवस्था

की प्रक्रिया का प्रावधान है जिसके लिये लगातार

सात वर्षो या अधिक से लागांश दावा-रहित /

अप्रदत्त रहा है। उक्त नियमावली के अनुसार

यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, समय-समय पर यथा- संशोधित ("नियमावली") के प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है।

दावा-रहित/अप्रदत्त लाभांश के साथ ऐसे शेयरों को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण में हस्तांतरित किया जायेगा। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट www.dcmshriram.com पर अपलोड की गई है। नियमावली के अनुपालन में सूचना का वैयक्तिक पत्र ऐसे शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते ार भेज दी गई हैं जिन्होंने कंपनी की अभिलेखों के अनुसार वितीय वर्ष 2016-17 प्रथम लामांश के बाद के लिये अपने लाभांश को नहीं मुनाये हैं तथा यह सचना तदनसार जारी की जा रही है। संबंधित शेयरधारकों से आग्रह है कि कंपनी रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट- एमसीएस शेयर टांसफर एजेन्ट लि.. एफ-65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, टेली: 011- 41406149-52, **ई-मेल**: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com से सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये, शेयरघारकों से आग्रह है कि वे मेजी गई व्यक्तिगत सूचना देखें। उक्त सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.dcmshriram.com पर

कृपया सभी पत्राचार में अपने फोलियो / डीपी आईडी संख्या कोट करें।

भी उपलब्ध है।

तिथि: 31.08.2023

कते, ढीसीएम श्रीराम लिए समीत गम्भीर स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं

अनुपालन अधिकारी

एक्जि नं.17088

ऋण वसुली अधिकरण चंडीगढ (डीआरटी 2) 1ला तल, एससीओ-33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ ( ३रे एवं 4थे तल

पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित)

मामला सं. ओए/567/2022 ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स

केनरा बैक

राम मेहर एवं अन्य सेवा में. 1. राम मेहर एवं अन्य

डी/डब्ल्यू/एस/ओ-चूना राम, राम मेहर, पुत्र चूना राम, उर 73 वर्ष निवासी : मकान सं. 19 ग्राम, गौशाला, तहसील ए जिला गुड़गांव, हरियाणा-122101 जैसा के ओए/567/2022 दिनांक 28.03.2023 व

माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सुचीबद्ध किया गया था। जैसा कि माननीय अधिकरण र 2642576/- (रु. छब्बीस लाख बयालिस हजार पांच सं छियत्तर मात्र) के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक आवेदन पर समन्स/सचना सहर्ष जारी किया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसा प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है। i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारप

दर्शाएं की मांगी गई राहतों को क्यं न स्वीकार क

ii) मल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदव द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों व अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों व

ii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सनवा तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मुख आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किस अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभू परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने

आपको वंचित किया जाता है। i) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवस की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभृति हित निर्मित है एवं अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों य

सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे। 🗸) आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथव

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गड़ बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों प प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जम करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित

स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पार प्रस्तुत करें तथा 13.09.2023 को 10.30 को पूर्वा. ग रजिस्टार के समक्ष उपस्थित हों. अन्यथा आवेदन क सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 30.01.2021 को दी गई। रजिस्ट्रार आई/र्स

डीआरटी-II चंडीगढ

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

कंपनी सचिव

www.readwhere.com